

प्रेस विज्ञप्ति

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा अपने सातारा अंचल के सब-स्टाफ सदस्यों के सम्मान में 'सातारा के सितारे' कार्यक्रम का आयोजन

पुणे, 6 दिसंबर, 2021 : बैंक ऑफ महाराष्ट्र देश का सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है। बैंक ने अपने सातारा अंचल के सब-स्टाफ सदस्यों के सम्मान में दिनांक 4 दिसंबर, 2021 को पुणे शहर अंचल कार्यालय में 'सातारा के सितारे' कार्यक्रम का आयोजन किया। अपने दैनंदिन कार्य के अतिरिक्त बैंक के प्रति विशेष समर्पण प्रदर्शित करने और बैंक के लिए व्यवसाय संग्रहण में उल्लेखनीय योगदान हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री ए. एस. राजीव ने इन स्टाफ सदस्यों का सम्मान किया। इस कार्यक्रम में श्री हेमन्त टम्टा, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ श्री वी. एन. कांबळे, महाप्रबंधक, संसाधन आयोजना, श्री आर. एस. बंसल, महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधन, श्री वी. डी. कोल्हटकर, महाप्रबंधक, निरीक्षण, श्री राजेश सिंह, महाप्रबंधक व अंचल प्रबंधक, पुणे शहर अंचल, सुश्री अपर्णा जोगळेकर, अंचल प्रबंधक, सातारा अंचल और डॉ. राजेन्द्र श्रीवास्तव, सहायक महाप्रबंधक, राजभाषा भी उपस्थित थे।

श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सभी स्टाफ सदस्यों के लिए गर्व की बात है कि हमारा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच व्यवसाय वृद्धि में नंबर 1 है और यह केवल प्रत्येक स्टाफ सदस्य के समर्पित प्रयासों से ही संभव हो सका है। श्री राजीव ने कहा कि बैंक तेजी से प्रगति पथ पर अग्रसर है और देश के सभी हिस्सों में अपना प्रसार करते हुए हाल ही में बैंक ने तिरूमला में अपनी 2000वीं शाखा का शुभारंभ किया है। श्री राजीव ने बताया कि बैंक वर्ष 2024 तक ₹5 लाख करोड़ के व्यवसाय स्तर तक पहुंचने हेतु प्रतिबद्ध है और साथ ही यह विश्वास भी जताया कि सभी स्टाफ सदस्यों के समर्पित प्रयासों से यह अवश्य ही संभव होगा।

बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री हेमन्त टम्टा ने कहा कि यह सातारा अंचल के हमारे सब-स्टाफ सदस्यों द्वारा हासिल की गई एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और यह अन्य अंचलों के लिए प्रेरणादायी होगी। श्री टम्टा ने सब-स्टाफ सदस्यों के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला और कहा कि वे व्यवसाय के विकास, बही खाता रखरखाव और इयू डिलिजेंस आदि के मामले में बैंक की रीढ़ के रूप में कार्य करते हैं। श्री टम्टा ने बैंक द्वारा पद पर ध्यान दिए बिना अपने सभी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन हेतु प्रदान की गई विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों का भी उल्लेख किया जिसने उद्योग जगत में नए मानक स्थापित किए हैं।



निगमित संप्रेषण व निवेशक संबंध

प्रधान कार्यालय: लोकमंगल, शिवाजीनगर, पुणे-5

फोन - 020 25614495, 25614366, 25514501 से 12 विस्तार. 495

कार्यक्रम का शुभारंभ मान्यवरों द्वारा दीप-प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में सब-स्टाफ सदस्यों के अनुभवों का उल्लेख करने वाला एक ऑडियो-विजुअल भी प्रदर्शित किया गया। साथ ही, उपस्थित सब-स्टाफ सदस्यों ने बैंक के लिए व्यवसाय प्राप्ति के अपने अनुभवों को भी साझा किया। डॉ. राजेन्द्र श्रीवास्तव, सहायक महाप्रबंधक, राजभाषा ने कार्यक्रम का सूत्र-संचालन किया और सुश्री अपर्णा जोगळेकर, अंचल प्रबंधक, सातारा अंचल ने धन्यवाद ज्ञापन किया।